

लोकतंत्र का नया अध्याय शुरू हो रहा है

By : Editor Published On : 21 Jan, 2021 05:08 PM IST



राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 'अमेरिका को उसके लोकतंत्र के नए अध्याय की बधाई. राष्ट्रपति बाइडन और उप राष्ट्रपति कमला हैरिस को शुभकामनाएं.' उधर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा 'मैं आशा करता हूँ कि हमारे सभी नेता 78 साल के जो बाइडन को देख रहे होंगे जो अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे हैं जिन्होंने बंटे हुए देश को एकजुट करने और उसकी आत्मा को बहाल करने का संकल्प लिया है.' उन्होंने यह भी ट्वीट किया, 'मैं आशा करता हूँ कि हमारे नेता कमला हैरिस को अमेरिका की उप राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हुए देख रहे होंगे और विविधता और बहुलता की सीख ले रहे होंगे. यह भी उम्मीद करता हूँ कि भारत अपनी विविधता और बहुलता का हमेशा जश्न मनाएगा.'

जो बाइडन ने 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है. उनके बाद कमला हैरिसने उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों नेताओं को शुभकामनाएं देते हुए साथ काम करने की बात कही है. इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो बाइडन के अमेरिकी राष्ट्रपति और कमला हैरिस के उप राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि अमेरिका में लोकतंत्र का नया अध्याय शुरू हो रहा है. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर अमेरिका के साथ रणनीतिक संबंधों को मजबूती देने की बात कही है. पीएम ने कहा-मैं उन्हें सफल टर्म की शुभकामनाएं देता हूँ. हम साझा चुनौतियों और वैश्विक शांति-सुरक्षा के लिए साथ खड़े हैं. PLC.

URL : <https://www.internationalnewsandviews.com/लोकतंत्र-का-नया-अध्याय-शु/>

INTERNATIONAL NEWS AND VIEW CORPORATION



अंतरराष्ट्रीय समाचार एवं विचार निगम

12th year of news and views excellency

Committed to truth and impartiality

Copyright © 2009 - 2019 International News and Views Corporation. All rights reserved.

www.internationalnewsandviews.com